

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

[प्राधिकार से प्रकाशित]

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 1970/सांव 7, 1891

No. 32]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1970/MAGHA 7, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January 1970

S.O. 378.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

Bye-Election to the Council of States by the elected members of Kerala Legislative Assembly.

Serial Number	Name of Candidate	Address of Candidate
1.	E. P. Eapen	Parliatham, Pattom, Trivandrum.
2.	Nettoor P. Damodaram	Kochuthoppu, Trivandrum-8.
3.	Hamid Ali Schamnad	Advocate, "Seaview", Kasargode.

Trivandrum,
January 22, 1970.

DR. R. PRASANNAN,
Returning Officer.

[No. 100/CS-KL/7/69.]

By Order.

A. N. SEN.

Secy. to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1970

एल० ओ० 378—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

प्ररूप 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	ई० पी० ईवेन .	परिजाथम, पट्टम, तिरुवनन्तपुरम ।
2.	नेट्टूर पी० दामोवरन .	कोचुथोण्डु तिरुवनन्तपुरम-8 ।
3.	हामिद अली स्कमनद .	अधिवक्ता, "सीव्यू", काखगोडे ।

ह०-डा० आर० प्रसन्न,

रिटनिंग आफिसर ।

तिरुवनन्तपुरम

[सं० 100/ए० स० केरल/7/69]

जनवरी 22, 1970 ।

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।